



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1982/चैत्र 6, 1904

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1982/CHAITRA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

वर्जन रैंज 1

नई दिल्ली 27 मार्च, 1982

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269B (1) के अधीन
सूचना

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० 1/एस-आर-3/8-81/918.—प्रतः
मुझे एस० आर० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269
B के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थायी सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक
है और जिसकी संख्या प्लेट एल-35 है तथा जो कालकाजा, नई दिल्ली
में स्थित है (और इससे उपायधन अनुसूची में पूर्व रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 18) के अधीन
सारीख जून 81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से
कम वृक्षमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके वृक्षमान प्रतिफल से, ऐसे वृक्षमान प्रतिफल के पद्धत प्रतिफल
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिनी (अन्तरिनियों) के

बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य वास्तवियों को, जिनमें
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11)
या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय-
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिये
था, छिपाने में सुविधा के लिए,

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-B के अनुसरण में, मैं
उक्त अधिनियम की धारा 269-B की उप-धारा (1) के अधीन निम्न-
लिखित व्यक्तियों, प्रर्षात :-

1 श्री बजीर चम्ब मेहरा सुपुत्र स्वर्गीय श्री दुर्गा दास, निवासी
5/सी, 8 न्यू रोहताक रोड, नई दिल्ली ।

2 श्रीमती प्रशांता रानी पत्नी श्री रोशन लाल और
श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल, निवासी 146,
अजमेरी गेट, बाजार दिल्ली-110006 ।

3 श्री/श्रीमती/कुमारी
 (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग
 में सम्पत्ति है)

4 श्री/श्रीमती/कुमारी
 वह व्यक्ति जिसके बारे में
 अधोहस्ताक्षरी जाता है कि
 वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए कार्य-
 वाही शुरू करता हूँ। उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध
 में कोई भी धाक्षेय

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की
 अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30
 दिन की अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन
 के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति
 द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधि-
 नियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में
 यथा-परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
 दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० एल-35, कालकाजी, नई दिल्ली-19,
 एरिया 316.66, वर्ग गज,

एस० आर० गुप्ता सक्षम अधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

तारीख
 कोहर :

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
 SIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE I
 NEW DELHI

Notice Under Section 269 D (1) of The Income Tax, Act, 1961
 (43 of 1961)

New Delhi, the 27th March, 1982

No. IAC/Acq. I/SR-III/8-81/918.—Whereas I, S. R. Gupta
 being the Competent Authority under section 269B of the In-
 come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the
 said Act) have reason to believe that the immovable property,
 having a fair market value exceeding Rs. 25000 and bearing No.
 Plot No. L-35, situated at Kalkaji, New Delhi (and more fully
 described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of
 the registering officer at on June 81, for an apparent considera-
 tion which is less than the fair market value of the aforesaid
 property and I have reason to believe that the fair market value
 of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration
 therefor by more than fifteen percent of such apparent considera-
 tion and that the consideration for such transfer as agreed to
 between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly
 stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of
 the transferor to pay tax under the said Act, in respect
 of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys
 or other assets which have not been or which ought to
 be disclosed by the transferee for the purposes of the
 Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said
 Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby
 initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property
 by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D
 of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Wazir Chand Mehra S/o Late Sh. Durga
 Das, r/o 5-C/8, New Rohtak Road, New Delhi.
 (Transferor).

(2) Mrs. Parsanta Rani, W/o Sh. Roshan Lal &
 Mr. Rakesh Kumar s/o Sh. Roshan Lal both
 r/o 146, Ajmeri Gate Bazar, Delhi-110006. (Transferee),

(3) Shri/Smt./Km. (Person(s)
 in occupation of the property).

(4) Shri/Smt./Km. (Person(s)
 whom the undersigned knows to be interested in the
 property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property
 may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of aforesaid persons within a period of 45 days
 from the date of publications of this notice in the Official
 Gazette or a period of 30 days from the service of notice
 on the respective persons, whichever period expires
 later;

(b) by any other person interested in the Official Gazette:

Explanation:—The terms and expressions used herein as are
 Defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same
 meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Plot No. L-35, Kalkaji, New Delhi-19, area 316.66 sq. yd.

S. R. GUPTA, Competent Authority,
 (Inspecting Assistant Commis-
 sioner of Income Tax)

Date 27-3-81.